

## नियंत्रित रूप से स्कूल फिर से वापस जाना

### माता-पिता व देखभाल कर्ताओं के लिए चरणों संबंधी जानकारी

सत्र 2 के सप्ताह 3 से हम नियंत्रित रूप से स्कूल वापस जाना आरम्भ करेंगे। हमारे प्रत्येक चरण की योजना में क्या हो सकता है, वह नीचे दिया जा रहा है।

#### हर समय के लिए

- विद्यार्थियों, शिक्षकों व स्टाफ़ के लिए स्कूल सुरक्षित स्थान हैं।
- सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान कार्यक्रम होगा, चाहे वे घर में पढ़ाई करें या स्कूल में।
- अपने स्कूल से संपर्क रखते रहें जिससे आप सुनिश्चित कर सकें कि आपको समय-सारिणी में बदलाव संबंधी सभी आवश्यक नवीनतम सूचनाएँ मिलती रहें।
- COVID-19 के कोई भी पहचाने गए केसों का प्रबंधन स्वास्थ्य सलाह के अनुसार किया जाना जारी रहेगा, जिसमें जहाँ आवश्यकता होगी, स्थाई रूप से स्कूलों को बन्द किया जाएगा।

#### चरण 0 (वर्तमान चरण) (Phase 0 (current phase))

जिन परिवारों को आवश्यकता है, उनके लिए स्कूल खुले हैं।

- परिवारों को प्रोत्साहित किया जाता है कि जहाँ तक संभव हो सके बच्चों को घर पर ही रखा जाए, किसी भी बच्चे को स्कूल से वापस नहीं भेजा जाएगा।
- जो विद्यार्थी स्कूल में उपस्थित होंगे, उनका केवल निरीक्षण किया जाएगा, उनकी अपनी नियमित कक्षा में नहीं।
- बाहर घूमने जाने की या स्कूलों के बीच कोई गतिविधियाँ नहीं होंगी।
- अधिक मात्रा में सफ़ाई करना जारी रहेगा व स्वास्थ्य संबंधी सफ़ाई का सामान देने का प्रबंध होगा।

आपके लिए निम्नलिखित करना अनिवार्य है:

- यदि हो सके तो अपने बच्चे/बच्चों को घर पर ही रखें।
- अपने बच्चे/बच्चों को घर पर ही पढ़ाई करने के लिए सहायता देना जारी रखें।
- अपने स्कूल से ईमेल या फ़ोन से संपर्क करें। यदि आपको आवश्यकता है तो टेलिफ़ोन दुभाषिया सेवा का उपयोग करें।
- स्वास्थ्य सलाह का पालन करें और यदि आपके बच्चे/बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है तो उन्हें घर पर ही रखें।

#### चरण 1 (Phase 1)

विद्यार्थी स्कूल में सप्ताह में कम से कम एक दिन।

- स्कूल यह फैसला करेगा कि कौनसा समूह किस दिन स्कूल आएगा, पर वे कोशिश करेंगे कि भाई-बहन व परिवार एक ही दिन पर आएँ।
- जिन परिवारों को अपने बच्चे को प्रतिदिन स्कूल भेजना ज़रूरी है वे ऐसा कर सकते हैं और किसी भी बच्चे को वापिस नहीं भेजा जाएगा।
- कक्षाएँ स्कूल के विभिन्न क्षेत्रों में बाँट दी जाएँगी और विश्राम का समय भी कई समयों पर होगा।
- बाहर घूमने जाने की या स्कूलों के बीच कोई गतिविधियाँ नहीं होंगी।
- अधिक मात्रा में सफ़ाई करना जारी रहेगा व स्वास्थ्य संबंधी सफ़ाई का सामान देने का प्रबंध होगा।

## चरण 1 जारी रहेगा (Phase 1 continued)

आप अब निम्नलिखित कर सकते हैं:

- अपने बच्चे/बच्चों को सप्ताह में एक दिन स्कूल भेजें।
- आपको प्रोत्साहित किया जाता है कि जहाँ भी संभव हो सप्ताह के बाकी दिन आप अपने बच्चे को घर पर ही रखें।
- अपने स्कूल से पता करें कि आप अपने बच्चे/बच्चों को सप्ताह के किस दिन स्कूल भेजें।
- जब उचित हो तो स्कूल की कैन्टीन व पोशाक की दुकान का उपयोग करें जहाँ स्वास्थ्य संबंधी तरीके लागू होते हैं।

आपके लिए निम्नलिखित रहना अनिवार्य है:

- बच्चों को छोड़ने और लेने के बारे में अपने स्कूल की सलाह को मानें, जिसमें यह शामिल है कि आप कार में ही बैठे रहें और अपने बच्चे/बच्चों को तभी छोड़ें जब सुरक्षित हो।
- सामाजिक दूरी को बनाए रखें और स्कूल के गेटों के बाहर इकट्ठे न हों।
- यह सुनिश्चित करें कि आपके बच्चे/बच्चों के पास दिन का खाना व नाश्ता हो और यह ध्यान में रखें कि हो सकता है कि इस चरण में कुछ कैन्टीन काम न करें।
- अपने बच्चे/बच्चों को दूर से पढाई करने वाले दिनों में घर पर पढने में सहायता दें।
- अपने स्कूल से ईमेल या फ़ोन से संपर्क करें। यदि आपको आवश्यकता है तो टेलिफ़ोन दुभाषिया सेवा का उपयोग करें।
- स्वास्थ्य सलाह का पालन करें और यदि आपके बच्चे/बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है तो उन्हें घर पर ही रखें।

## चरण 2 (Phase 2)

विद्यार्थियों को सप्ताह में कम से कम दो दिन स्कूल में होना चाहिए।

- स्कूल यह फैसला करेगा कि कौनसा समूह किस दिन स्कूल आएगा, पर वे कोशिश करेंगे कि भाई-बहन व परिवार एक ही दिन पर आएँ।
- जिन परिवारों को अपने बच्चे को प्रतिदिन स्कूल भेजना ज़रूरी है वे ऐसा कर सकते हैं और किसी भी बच्चे को वापिस नहीं भेजा जाएगा।
- कक्षाएँ स्कूल के विभिन्न क्षेत्रों में बाँट दी जाएँगी और विश्राम का समय भी कई समयों पर होगा।
- बाहर घूमने जाने की या स्कूलों के बीच कोई गतिविधियाँ नहीं होंगी।
- अधिक मात्रा में सफ़ाई करना जारी रहेगा व स्वास्थ्य संबंधी सफ़ाई का सामान देने का प्रबंध होगा।

आप अब निम्नलिखित कर सकते हैं:

- अपने बच्चे/बच्चों को सप्ताह में दो दिन स्कूल भेजें।
- आपको प्रोत्साहित किया जाता है कि जहाँ भी संभव हो सप्ताह के बाकी दिन आप अपने बच्चे को घर पर ही रखें।
- अपने स्कूल से पता करें कि आप अपने बच्चे/बच्चों को सप्ताह के कौन से दो दिन स्कूल भेजें।
- जब उचित हो तो स्कूल की कैन्टीन व पोशाक की दुकान का उपयोग करें जहाँ स्वास्थ्य संबंधी तरीके लागू होते हैं।

## चरण 2 जारी रहेगा (Phase 2 continued)

आपके लिए निम्नलिखित करना अनिवार्य है:

- बच्चों को छोड़ने और लेने के बारे में अपने स्कूल की सलाह को मानें, जिसमें यह शामिल है कि आप कार में ही बैठे रहें और अपने बच्चे/बच्चों को तभी छोड़ें जब सुरक्षित हो।
- सामाजिक दूरी को बनाए रखें और स्कूल के गेटों के बाहर इकट्ठे न हों।
- यह सुनिश्चित करें कि आपके बच्चे/बच्चों के पास दिन का खाना व नाश्ता हो और यह ध्यान में रखें कि हो सकता है कि इस चरण में कुछ कैन्टीन काम न करें।
- अपने बच्चे/बच्चों को दूर से पढ़ाई करने वाले दिनों में घर पर पढ़ने में सहायता दें।
- अपने स्कूल से ईमेल या फ़ोन से संपर्क करें। यदि आपको आवश्यकता है तो टेलिफ़ोन दुभाषिया सेवा का उपयोग करें।
- स्वास्थ्य सलाह का पालन करें और यदि आपके बच्चे/बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है तो उन्हें घर पर ही रखें।

## चरण 3 (Phase 3)

विद्यार्थियों को सप्ताह में पाँच दिन स्कूल में होना चाहिए और सामाजिक दूरी लागू रहेगी।

- जिन विद्यार्थियों को स्वास्थ्य संबंधी अधिक खतरा है वे अपनी व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुसार घर पर पढ़ाई कर सकते हैं।
- विद्यार्थी पूरे दिन उसी कमरे में रहेंगे, पर विश्राम के समय भिन्न हो सकते हैं जिससे अलग कक्षाओं के विद्यार्थी एक दूसरे से मिलें नहीं।
- बाहर घूमने जाने की या स्कूलों के बीच कोई गतिविधियाँ नहीं होंगी।
- अधिक मात्रा में सफ़ाई करना जारी रहेगा व स्वास्थ्य संबंधी सफ़ाई का सामान देने का प्रबंध होगा।

आप अब निम्नलिखित कर सकते हैं:

- अपने बच्चे/बच्चों को प्रतिदिन स्कूल भेजें।
- सामुदायिक सेवाएँ जो स्कूल स्थलों पर प्रदान की जाती हैं, जहाँ उन पर कोई पब्लिक स्वास्थ्य संबंधी आदेशों का प्रतिबंध नहीं है, उनका उपयोग करें।
- जब उचित हो तो स्कूल की कैन्टीन व पोशाक की दुकान का उपयोग करें जहाँ स्वास्थ्य संबंधी तरीके लागू होते हैं।
- सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए अपने बच्चे/बच्चों को स्कूल के अन्दर व बाहर ले जाएँ।

आपके लिए निम्नलिखित करना अनिवार्य है:

- बच्चों को छोड़ने और लेने के बारे में अपने स्कूल की सलाह को मानें, जिसमें यह शामिल है कि आप कार में ही बैठे रहें और अपने बच्चे/बच्चों को तभी छोड़ें जब सुरक्षित हो।
- सामाजिक दूरी को बनाए रखें और स्कूल के गेटों के बाहर इकट्ठे न हों।
- यह सुनिश्चित करें कि आपके बच्चे/बच्चों के पास दिन का खाना व नाश्ता हो और यह ध्यान में रखें कि हो सकता है कि इस चरण में कुछ कैन्टीन काम न करें।
- अपने बच्चे/बच्चों को दूर से पढ़ाई करने वाले दिनों में घर पर पढ़ने में सहायता दें।
- अपने स्कूल से ईमेल या फ़ोन से संपर्क करें। यदि आपको आवश्यकता है तो टेलिफ़ोन दुभाषिया सेवा का उपयोग करें।
- स्वास्थ्य सलाह का पालन करें और यदि आपके बच्चे/बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है तो उन्हें घर पर ही रखें।

## चरण 4 (Phase 4)

विद्यार्थी स्कूल में सप्ताह के पाँचों दिन सारी गतिविधियों सहित।

- स्कूल में सामान्य रूप से विश्राम का समय व प्रवेश/बाहर जाने की प्रक्रियाएँ फिर से आरम्भ होंगी।
- अलग-अलग स्कूलों में अलग-अलग तरीके से, संक्रमण संबंधी नियंत्रण की कार्यवाहियाँ जारी रहेंगी।
- स्टाफ़, विद्यार्थियों व परिवारों को NSW Health संबंधी सलाह बताया जाना जारी रहेगा।
- Early Childhood Education Sector (प्रारम्भिक बाल शिक्षा सेक्टर) को NSW Health संबंधी सलाह बतानी जारी रहेगी।

आप अब निम्नलिखित कर सकते हैं:

- अपने बच्चे/बच्चों को प्रतिदिन स्कूल भेजें।
- स्कूल से बाहर घूमने जाने व अन्य स्कूलों के साथ की जाने वाली गतिविधियों में भाग लें।
- स्कूलों में खेल के मैदानों के उपकरणों का उपयोग करना।
- अपने बच्चे/बच्चों को को स्कूल में सामान्य रूप से छोड़ें।
- स्कूल-आधारित कक्षाओं व असेम्बलियों जैसी स्वयं-सेवी गतिविधियों में हिस्सा लें।
- जो सेवाएँ आपके स्कूल में आमतौर पर की जाती हैं जैसे कि कैन्टीन व समुदाय के समूहों द्वारा आयोजित अन्य गतिविधियाँ उनका उपयोग करें।

## टेलीफ़ोन दुभाषिया सेवा

यदि आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो कृपया अपने स्कूल के प्रिन्सीपल को फ़ोन करें। यदि आपको अपने प्रश्न के बारे में दुभाषिए की मदद चाहिए तो टेलीफ़ोन दुभाषिया सेवा को 131 450 पर फ़ोन करें, उनको बताएँ की आप कौनसी भाषा बोलते हैं। इस सेवा के लिए आपको कोई खर्चा नहीं देना होगा।